

Deu

Chapter 25

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וְהִצְדִּיקוּ और-धर्मी-ठहराएंगे H6663	וְשָׁפְטוּ और-न्याय-करेंगे-उन्हें H8199	הַמִּשְׁפָּט न्याय H4941	אֶל- को- H0413	וְנָשֹׂא और-आएंगे H5066	אֲנָשִׁים पुरुषों H0376	בֵּין बीच H0996	רִיב विवाद H7379	יְהִי होगा H1961	כִּי- यदि- H1961	1
				הַרְשָׁע: दोषी H7563	אֶת- को- H0853	וְהִרְשִׁיעוּ और-दोषी-ठहराएंगे H7561	הַצְדִּיק धर्मी H6662	אֶת- को- H0853		

“यदि दो व्यक्तियों में झगड़ा हो तो उन्हें अदालत में जाना चाहिये। न्यायाधीश उनके मुकदमें का निर्णय करेंगे और बताएंगे कि कौन व्यक्ति सच्चा है तथा कौन अपराधी।

כְּדִי अनुसार H1767	לְפָנָיו सामने-उसके H6440	וְהִכָּהוּ और-मारिगा-उसे H5221	הַשֹּׁפֵט न्यायाधीश H8199	וְהִפִּילֹו और-लिटाएगा-उसे H5307	הַרְשָׁע दोषी H7563	הַכּוֹת मारने-का H5221	בְּ- योग्य H5221	אִם- यदि- H5221	וְהִיָּה और-होगा H1961	2
								בְּמִסְפָּר: गिनती-में H4557	רָשָׁעָהּ दुष्टता-उसकी H7564	

यदि अपराधी व्यक्ति पीटे जाने योग्य है तो न्यायाधीश उसे मुँह के बल लेटाएगा। कोई व्यक्ति उसे न्यायाधीश की आँखों के सामने पीटेगा। वह व्यक्ति उतनी बार पीटा जाएगा जितनी बार के लिए उसका अपराध उपयुक्त होगा।

רַבָּה बहुत H4347	מְכֹחָ मार H0428	אֵלֶיהָ ये H0428	עַל- उपर- H0428	לְהַכּוֹתָ मारने-को-उसे H5221	יִסְרָף बढ़ाएगा H3254	פָּן- कहीं- H6435	יִסְרָף बढ़ाएगा H3254	לֹא नहीं H3808	יִכְנֹו मारिगा-उसे H5221	אֲרַבְעִים चालीस H0705	3
					ס स H0251	לְעֵינֶיהָ: आँखों-तेरी-में H0251	אֶתְּךָ भाई-तेरा H0251	וְנִקְלָה और-अपमानित-होगा H7034			

कोई व्यक्ति चालीस बार तक पीटा जा सकता है, किन्तु उससे अधिक नहीं। यदि वह उससे अधिक बार पीटा जाता है तो इससे यह पता चलेगा कि उस व्यक्ति का जीवन तुम्हारे लिये महत्वपूर्ण नहीं।

ס स H1758	בְּדִישׁוֹ: दाँवने-में-उसके H1758	שׂוֹר बैल H7794	תְּחַסֵּם बांधेगा H2629	לֹא- नहीं- H3808	4
-----------------	---	-----------------------	-------------------------------	------------------------	---

“जब तुम अन्न को अलग करने के लिये पशुओं का उपयोग करो तब उन्हें खाने से रोकने के लिए उनके मुँह को न बाँधो।

תְּהִיָּה होगी H1961	לֹא- नहीं- H3808	לִּי उसे H0369	אֵין- नहीं-है- H0369	וּבֶן- और-पुत्र H1992	מִמֶּם उनमें-से H0259	אֶחָד एक H4191	וְנָמַת और-मरेगा H4191	יַחְדָּו एक-साथ H0251	אֶחָיו भाई H0251	יִשְׁבוּ रहेंगे H3427	כִּי- यदि- H1961	5
לְאִשָּׁה पत्नी-को H0802	לִי उसे H0802	וְלִקְחוּ और-लेगा-उसे H3947	עָלֶיהָ उस-पर H0802	יָבֵא आएगा H0935	יְבִמָּהּ देवर-उसका H2993	זָר अजनबी H0376	לְאִישׁ पुरुष-को H0376	הַחוּצָה बाहर H2351	הַמָּת मरे-हुए-की H4191	אִשְׁתּוֹ पत्नी- H0802		
								וְיִבְמָהּ: और-देवर-करेगा-उसे H2992				

“यदि दो भाई एक साथ रह रहे हों और उनमें एक पुत्रहीन मर जाए तो मृत भाई की पत्नी का विवाह परिवार के बाहर के किसी अजनबी के साथ नहीं होना चाहिए। उसके पति के भाई को उसके प्रति पति के भाई का कर्तव्य पूरा करना चाहिए।

יִמְחָה	וְלֹא-	הָמָת	אָחִיו	שֵׁם	עַל-	יָקוּם	תֵּלֵד	אֲשֶׁר	הַבְּכוֹר	וְהָיָה	6
मिटाय़ा-जाएगा	और-नहीं-	मरे-हुए	भाई-उसके-के	नाम	उपर-	उठेगा	जनेगी	जो	ज्येष्ठ	और-होगा	
	H3808	H4191	H0251	H8034			H3205		H1060	H1961	

מִיִּשְׂרָאֵל :
इस्राएल-से
[H3478](#)

שְׁמוֹ
नाम-उसका
[H8034](#)

तब जो पहलौठा पुत्र उससे उत्पन्न होगा वह व्यक्ति के मृत भाई का स्थान लेगा। तब मृत—भाई का नाम इस्राएल से बाहर नहीं किया जाएगा।

אַל-	הַשְּׂעָרָה	יְבִמְתּוֹ	וְעָלְתָה	יְבִמְתּוֹ	אֶת-	לְקַחַת	הָאִישׁ	יִחַפֵּן	לֹא	וְאִם-	7
को-	फाटक-को	भाभी-उसकी	और-जाएगी	भाभी-उसकी	को-	लेने-को	पुरुष	चाहेगा	नहीं	और-यदि-	
H0413	H8179	H2994	H5927	H2994	H0853	H3947	H0376		H3808		

אָבָה
चाहा
[H0014](#)

לֹא
नहीं
[H3808](#)

בְּיִשְׂרָאֵל
इस्राएल-में
[H3478](#)

שֵׁם
नाम
[H8034](#)

לְאָחִיו
भाई-उसके-को
[H0251](#)

לְהָקִים
उठाने-को
[H2993](#)

יְבִמִי
देवर-मेरा
[H3985](#)

מֵאִין
नहीं-चाहता-है
[H3985](#)

וְאִמְרָה
और-कहेगी
[H0559](#)

הַזְּקֵנִים
पुरनियों
[H2205](#)

יְבִמִי
देवर-करना-मुझे
[H2992](#)

यदि वह व्यक्ति अपने भाई की पत्नी को ग्रहण करना नहीं चाहता, तब भाई की पत्नी को बैठकवाली जगह पर नगर—प्रमुखों के पास जाना चाहिए। उसके भाई की पत्नी को नगर प्रमुखों से कहना चाहिए, 'मेरे पति का भाई इस्राएल में अपने भाई का नाम बनाए रखने से इन्कार करता है। वह मेरे प्रति अपने भाई के कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा।'

חָפְצָתִי	לֹא	וְאָמַר	וְעָמַד	אֵלָיו	וְדָבְרוּ	עִירוֹ	זְקֵנֵי-	לוֹ	וְקָרָאוּ-	8
चाहता-हूँ	नहीं	और-कहेगा	और-खड़ा-होगा	उससे	और-बोलेंगे	नगर-उसके-के	पुरनिये-	उसे	और-बुलाएंगे-	
	H3808	H0559	H5975	H0413	H1696		H2205		H7121	

לְקַחַתָּהּ
लेने-को-उसे
[H3947](#)

तब नगर—प्रमुखों को उस व्यक्ति को बुलाना और उससे बात करनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति हठी है और कहता है, 'मैं उसे नहीं ग्रहण करना चाहता।'

רֵגְלוֹ	מֵעַל	נִשְׂאוֹ	וְחָלְצָה	הַזְּקֵנִים	לְעֵינַי	אֵלָיו	יְבִמְתּוֹ	וְנִשְׂאָה	9
पैर-उसके	उपर-से	जूता-उसका	और-खोलेगी	पुरनियों-के	आँखों-में	उसके-पास	भाभी-उसकी	और-आएगी	
H7272		H5275		H2205		H0413	H2994	H5066	

יְבִנָּה
बनाएगा
[H1129](#)

לֹא-
नहीं-
[H3808](#)

אֲשֶׁר
जो
[H0376](#)

לְאִישׁ
पुरुष-को
[H0376](#)

יַעֲשֶׂה
किया-जाएगा
[H3602](#)

כָּכָה
ऐसे
[H3602](#)

וְאִמְרָה
और-कहेगी
[H0559](#)

וְעָנְתָהּ
और-उत्तर-देगी
[H6440](#)

בְּפִנְיֵי
मुख-उसके-पर
[H6440](#)

וַיִּרְקָה
और-थूकेगी
[H3417](#)

אָחִיו
भाई-उसके-का
[H0251](#)

בֵּית
घर
[H0853](#)

אֶת-
को-

तब उसके भाई की पत्नी नगर प्रमुखों के सामने उसके पास आए। वह उसके पैर से उसके जूते निकाल ले और उसके मुँह पर थूके। उसे कहना चाहिए, 'यह उस व्यक्ति के साथ किया जाता है जो अपने भाई का परिवार नहीं बसाएगा।'

ס	הַנְּעֹל :	חָלוּץ	בֵּית	בְּיִשְׂרָאֵל	שְׁמוֹ	וְנִקְרָא	10
स	जूते-का	खुले-हुए	घर	इस्राएल-में	नाम-उसका	और-पुकारा-जाएगा	
	H5275			H3478	H8034	H7121	

तब उस भाई का परिवार, इस्राएल में, 'उस व्यक्ति का परिवार कहा जाएगा जिसने अपने जूते उतार दिये।'

את- को-	להציל बचाने-को	האחד एक-की	אשת पत्नी	וקרבה और-आएगी	ואחיו और-भाई-उसका	איש पुरुष	יחדו एक-साथ	אנשים पुरुष	ינצו लड़ेंगे	כי- यदि-	11
H0853	H5337	H0259	H0802	H7126	H0251	H0376		H0376			

במבשרו गुप्तांगों-में-उसके	והחזיקה और-पकड़ेगी	יָדָהּ हाथ-उसका	ושלחה और-भेजेगी	מכהו मारने-वाले-उसके	מִיָּד हाथ-से	אֶשְׁתּוֹ पति-उसके
H4016	H2388	H3027	H7971	H5221	H3027	H0376

“दो व्यक्ति परस्पर झगड़ा कर सकते हैं। उनमें एक की पत्नी अपने पति का सहायता करने आ सकती है। किन्तु उसे दूसरे व्यक्ति के गुप्त अंगों को नहीं पकड़ना चाहिए।

ס स	עֵינָיָהּ आँख-तेरी	תָּחוּס तरसेगी	לֹא नहीं	כַּפָּה हथेली-उसकी	את- को-	וקצתה और-काटेगा	12
		H2347	H3808	H3709	H0853	H7112	

यदि वह ऐसा करती है तो उसके हाथ काट डालो, उसके लिये दुःखी मत होओ।

ס स	וקטנה: और-छोटा	גדולה बड़ा	ואבן और-पत्थर	אבן पत्थर	בביתו थैली-तेरी-में	לָהּ तेरे-लिए	יהיה होगा	לֹא- नहीं-	13
			H0068	H0068	H3599		H1961	H3808	

“लोगों को धोखा देने के लिये जाली बाट न रखो। उन बातों का उपयोग न करो जो असली वजन से बहुत कम या बहुत ज्यादा हो।

וקטנה: और-छोटा	גדולה बड़ा	ואיפה और-एक-पा	איפה एक-पा	בביתו घर-तेरे-में	לָהּ तेरे-लिए	יהיה होगा	לֹא- नहीं-	14
		H0374	H0374			H1961	H3808	

अपने घर में उन मापों को न रखो जो सही माप से बहुत बड़े या बहुत छोटे हों।

למען ताकि	לָהּ तेरे-लिए	יהיה- होगा-	וצדק और-सीधा	שלמה पूरा	איפה एक-पा	לָהּ तेरे-लिए	יהיה- होगा-	וצדק और-सीधा	שלמה पूरा	אבן पत्थर	15
H4616		H1961	H6664	H8003	H0374		H1961	H6664	H8003	H0068	

לָהּ तेरे-लिए	נתן दे-रहा-है	אלהים एलोहीम-तेरा	יהוה यहोवा	אשר- जो-	הארמה भूमि	על उपर	ימיו दिनों-तेरे	יאריכו लम्बे-करेंगे
	H5414	H0430	H3068		H0127		H3117	H0748

तुम्हें उन बातों और मापों का उपयोग करना चाहिए जो सही और ईमानदारी के परिचायक हैं। तुम उस देश में लम्बी आयु वाले होंगे जिसे यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर तुमको दे रहा है।

פ प	עול: अधर्म	עשה करने-वाला	כל सब	אלה ये	עשה करने-वाला	כל- सब-	אלהים- एलोहीम-तेरे	יהוה यहोवा-की	תועבת घृणा	כי क्योंकि	16
			H3605	H0428		H3605	H0430	H3068	H8441		

यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उनसे घृणा करता है जो जाली बाट और माप का उपयोग करके धोखा देते हैं। हाँ, वे उन सभी लोगों से घृणा करता है जो बेईमानी करते हैं।

ממצרים: मिस्रायम-से	בצאתכם निकलने-में-तुम्हारे	בדרך रास्ते-में	עמלק अमालेक-ने	לָהּ तेरे-को	עשה किया	אשר- जो-	את को	זכור याद-करना	17
H4714	H3318	H1870	H6002				H0853	H2142	

“याद रखो कि जब तुम मिस्र से आ रहे थे तब अमालेक के लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया।

עָיָה थका-हुआ	ואתה और-तू	אחרי पीछे-तेरे	הנחשלים कमजोरों	כל- सब-	בה तुझमें	וינוב और-पूँछ-काटा	בדרך रास्ते-में	קרר मिला-तुझे	אשר जिसने	18
H5889			H2826	H3605		H2179	H1870			

אלהים: एलोहीम-से	ירא डरा	ולא और-नहीं	ויגע और-थका-हुआ
H0430	H3373	H3808	H3023

अमालेक के लोगों ने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया था। उन्होंने तुम पर तब आक्रमण किया जब तुम थके हुए और कमजोर थे। उन्होंने तुम्हारे उन सब लोगों को मार डाला जो पीछे चल रहे थे।

19

יְהוָה- यहोवा- H3068	אֲשֶׁר जो H0776	בְּאֶרֶץ देश-में H5439	מִסָּבִיב चारों-ओर-से H5439	אֲבִיבֵי शत्रुओं-तेरे H0341	מִכָּל- सब-से- H3605	לְ तुझे H0430	אֱלֹהֶיךָ एलोहीम-तेरा H0430	יְהוָה यहोवा H3068	בְּהַנִּיחַ आराम-देने-में H5117	וְהָיָה और-होगा H1961
מִתַּחַת नीचे-से H8478	עַמְלֵק अमालेक-की H6002	זָכַר स्मृति H2143	אֶת- को- H0853	תִּמְחָה मिटाएगा H3423	לְשָׂרְיָה अधिकार-में-लेने-को-उसे H3423	נִחַלְתָּ विरासत-में H5159	לְ तुझे H5159	נָתַן दे-रहा-है H5414	אֱלֹהֶיךָ एलोहीम-तेरा H0430	
						פ प	תִּשְׁכַּח: भूलेगा H7911	לֹא नहीं H3808	הַשָּׁמַיִם आकाश H8064	

इसलिए तुम लोगों को अमालेक के लोगों की याद को संसार से मिटा देना चाहिए। यह तुम लोग तब करोगे जब उस देश में जाओगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। वहाँ वे तुम्हें तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। किन्तु अमालेकियों को नष्ट करना मत भूलो!